

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- वित्तीय वर्ष 2024/25 के पहले महीने अप्रैल में, भारतीय रिफाइनर ने लगभग 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन रूसी तेल आयात किया, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 8.2% अधिक है, जिससे भारत में रूसी तेल की हिस्सेदारी पिछले महीने में 32% से बढ़कर लगभग 38% हो गई।
- पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 के दौरान भारत में कच्चे तेल का आयात बढ़कर 21.4 मिलियन टन हो गया, जो रिकॉर्ड तीसरा उच्चतम स्तर है, जो माह-दर-माह 3 प्रतिशत और वर्ष-दर-वर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि है।
- रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण पिछले महीने रत्न और आभूषण निर्यात 11 प्रतिशत कम होकर 2.07 अरब डॉलर (17,307 करोड़ रुपये) रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.34 अरब डॉलर (19,198.4 करोड़ रुपये) था। लेकिन, रत्न और आभूषण का आयात चार प्रतिशत बढ़कर 1.89 अरब डॉलर (पिछले साल की समान

अवधि के 1.82 अरब डॉलर के मुकाबले) हो गया।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने गुजरात में ळष्ष षैको ग्लोबल ट्रेडिंग हबशके रूप में स्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में चीन में कच्चे एल्युमीनियम और उत्पादों का आयात सालाना आधार पर 72.1% बढ़कर 380,000 मीट्रिक टन हो गया।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक लेड बाजार फरवरी में 29,500 टन के सरप्लस से मार्च में 5,500 मीट्रिक टन की कमी पर पहुंच गया।
- स्किल्ड मिलक पाउडर और अन्य उत्पादों की कम कीमतों के कारण मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद 2023-24 में भारत का डेयरी निर्यात पांचवीं गिरावट के साथ 468 मिलियन डॉलर पर आ गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.05.24	23.05.24	बदलाव (%)
हल्दी	17880.00	19398.00	8.49%
जीरा	27840.00	29330.00	5.35%
कच्चा सूरजमुखी तेल	865.70	893.90	3.26%
धनिया	7454.00	7682.00	3.06%
जौ	2112.00	2161.50	2.34%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.05.24	23.05.24	बदलाव (%)
सीसेम सीड	15000.00	14730.00	-1.80%
कैस्टर ऑयल	1164.50	1154.00	-0.90%
स्टील	47420.00	47060.00	-0.76%
कैस्टर सीड	5719.00	5712.00	-0.12%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.05.24	23.05.24	बदलाव (%)
निकल	1650.00	1757.30	6.50%
नेचुरल गैस	216.80	223.50	3.09%
जिंक	266.70	271.85	1.93%
कॉटन	56100.00	56500.00	0.71%
मेंथा ऑयल	925.30	927.00	0.18%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.05.24	23.05.24	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6662.00	6397.00	-3.98%
तांबा	916.75	890.20	-2.90%
सोना	73711.00	71577.00	-2.90%
सोना गिनी	59583.00	58216.00	-2.29%
लेड	194.05	191.20	-1.47%

## साप्ताहिक समीक्षा

यह प्रमुख धातुओं के लिए एक ऐतिहासिक सप्ताह था, जिसमें सोना, चांदी और तांबा नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन तेजी कायम नहीं रह सकी और कीमतें गिर गईं। ₹71,600 के आसपास बंद होने से पहले सोना ₹74,442 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कृषि क्षेत्र में मिला-जुला कारोबार हुआ, और सीआरबी सूचकांक लगातार तीसरे सप्ताह उच्च स्तर पर बंद हुआ। नयी खरीदारी के कारण डॉलर इंडेक्स में गिरावट पर रोक लग गई और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की, और सोने की कीमतें ₹74,442 और चांदी की कीमतें ₹95,950 पर पहुंच गईं। कॉम्क्स पर सोना 2,454.20 डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया और चांदी 32.57 डॉलर की कई साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। लेकिन, उच्च ब्याज दरों पर नई चिंताओं और सुरक्षित निवेश के लिए मांग में कमी के कारण सप्ताह के अंत में मुनाफावसूली हुई, जिससे सोने की कीमतों पर असर पड़ा। औद्योगिक धातुओं की कीमतों में भी गिरावट हुई। मुनाफावसूली और डॉलर के दबाव के बीच तांबे की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से तेजी से गिर गईं। तांबे की कीमतों ने ₹945.50 की ऐतिहासिक ऊंचाई तय की, जबकि जिंक और एल्युमीनियम की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। फिर भी लेड और तांबे को अपने उच्चतम स्तर से मुनाफावसूली का सामना करना पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में मंदी का रुख रहा, जबकि नेचुरल गैस की कीमतें लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनटों के बाद गुरुवार को लगातार चौथे सत्र में तेल की कीमतों में गिरावट हुई, जिसमें मुद्रास्फीति स्थिर रहने पर ब्याज दरों को अधिक सख्त करने की चर्चा सामने आई, जो तेल की मांग को नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्विक स्तर पर, रिफाइनरी की कमजोर मांग और पर्याप्त आपूर्ति के कारण भौतिक कच्चे तेल बाजारों पर दबाव पड़ा है।

कृषि जिनसों में, अरंडी की कीमतें बढ़त के साथ बंद हुईं, जो तेजी के लिए तैयार है। सूरजमुखी तेल की कीमतें भी जोरदार बढ़त के साथ बंद हुईं। कपास में चौथे सप्ताह मंदी बनी रही, लेकिन कपास में निचले स्तर से उल्लेखनीय बढ़त देखी गई। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतें 2800 के पार पहुंच गईं। ग्वार बाजार सप्ताह के अंत में बढ़त के साथ बंद हुआ। मसाला क्षेत्र में काफी सक्रियता देखी गई, और जीरा की कीमतों में चौथे सप्ताह बढ़ोतरी हुई क्योंकि किसानों ने स्टॉक जमा कर रखा था, जबकि हल्दी में बड़े पैमाने पर खरीदारी देखी गई। धनिया ने भी सप्ताह का अंत जोरदार बढ़त के साथ किया।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	17.05.2024	23.05.2024	बदलाव (%)
जौ	जयपुर	2110.25	2149.50	1.86%
चना	दिल्ली	6862.30	7098.05	3.44%
धनिया	कोटा	7536.80	7637.15	1.33%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	881.80	878.60	-0.36%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1610.60	1630.25	1.22%
ग्वारसीड	जोधपुर	5587.50	5588.05	0.01%
ग्वारगम	जोधपुर	10935.00	11012.00	0.70%
जीरा	ऊझा	29422.70	30739.90	4.48%
सरसों	जयपुर	5842.10	6108.30	4.56%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	925.00	942.50	1.89%
सोयाबीन	इंदौर	4817.00	4866.30	1.02%
हल्दी	निजामाबाद	17313.90	18028.80	4.13%
गेहूं	दिल्ली	2488.10	2525.65	1.51%
कॉटन	कड़ी	27249.70	27010.70	-0.88%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2767.55	2797.70	1.09%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.05.2024	23.05.2024	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2612.00	2621.50	0.36%
तांबा	LME	नकद	10668.00	10417.50	-2.35%
लेड	LME	नकद	2283.50	2306.00	0.99%
निकल	LME	नकद	21080.00	20084.00	-4.72%
जिंक	LME	नकद	3031.00	3062.50	1.04%
सोना	COMEX	जून	2417.40	2337.20	-3.32%
चांदी	COMEX	जुलाई	31.12	30.31	-2.61%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	80.06	76.87	-3.98%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.63	2.66	1.18%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.05.2024	23.05.2024	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	1,225.25	1,237.75	1.02%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	45.54	45.48	-0.13%
कॉटन	ICE	जुलाई	75.82	79.62	5.01%
सीपीओ	BMD	अगस्त	3,892.00	3,894.00	0.05%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	16.05.2024 क्वांटिटी	23.05.2024 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	30	381	351
जौ	मी.टन	381	381	0
कैस्टर सीड	मी.टन	22255	24084	1829
धनिया	मी.टन	9068	9323	255
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	57491	53812	-3679
ग्वारगम	मी.टन	17761	17845	84
ग्वारसीड	मी.टन	5423	18625	13202
जीरा	मी.टन	318	198	-120
स्टील	मी.टन	10	10	0

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	17.05.2024 क्वांटिटी	23.05.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	90	9	-81
तांबा	मी.टन	1702725	1532578	-170147
सोना	किग्रा	329	329	0
सोना मिनी	किग्रा	1776	1776	0
सोना गिनी	किग्रा	83700	56000	-27700
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	307297	8702	-298595
चांदी एम	किग्रा	50283	50273	-10
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 17.05.2024	स्टॉक की स्थिति 23.05.2024	अंतर
एल्युमीनियम	1092800	1127775	34975.00
तांबा	105900	110025	4125.00
निकल	81834	84042	2208.00
लेड	209425	202175	-7250.00
जिंक	258850	257625	-1225.00





## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जून	29330.00	23.04.24	तेजी	22000.00	27650.00	-	27600.00
NCDEX	हल्दी	जून	<b>19398.00</b>	<b>22.05.24</b>	<b>तेजी</b>	<b>18800.00</b>	<b>17600.00</b>	-	<b>17500.00</b>
NCDEX	धनिया	जून	7682.00	16.05.24	तेजी	7400.00	7330.00	-	7300.00
NCDEX	ग्वारसीड	जून	5504.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5350.00	-	5300.00
NCDEX	ग्वारगम	जून	10852.00	28.03.24	तेजी	10000.00	10450.00	-	10400.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जून	5712.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5520.00	-	5500.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	जून	893.90	06.03.24	तेजी	845.00	845.00	-	840.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जून	2725.00	16.05.24	तेजी	2630.00	2580.00	-	2570.00
NCDEX	कपास	अप्रैल-25	1610.00	16.05.24	तेजी	1565.00	1550.00	-	1530.00
MCX	मेंथा ऑयल	जून	941.90	27.09.23	मंदी	960.00	-	975.00	980.00
MCX	बुलडेक्स	जून	18614.00	04.03.24	तेजी	16600.00	18250.00	-	18200.00
MCX	चांदी	जुलाई	90437.00	04.03.24	तेजी	72200.00	84200.00	-	84000.00
MCX	सोना	जून	71577.00	04.03.24	तेजी	64000.00	70600.00	-	70500.00
MCX	तांबा	जून	898.45	06.03.24	तेजी	730.00	855.00	-	850.00
MCX	लेड	जून	193.05	06.03.24	तेजी	179.00	182.00	-	180.00
MCX	जिंक	जून	270.90	06.03.24	तेजी	218.00	245.00	-	244.00
MCX	एल्युमिनियम	जून	239.15	04.03.24	तेजी	202.00	231.00	-	230.00
MCX	कच्चा तेल	जून	<b>6397.00</b>	<b>21.05.24</b>	<b>मंदी</b>	<b>6550.00</b>	-	<b>6725.00</b>	<b>6750.00</b>
MCX	नेचुरल गैस	जून	246.10	26.04.24	तेजी	165.00	217.00	-	215.00

\*23/05/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा (जून) एमसीएक्स



### तांबा (जून) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 953.45

निचला स्तर: 772.00

एमसीएक्स में तांबा (जून) कॉन्ट्रैक्ट 23 मई 2024 को 898.45 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 891.34 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 58.03 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

908.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 885.00 ₹ के टारगेट के लिए 900.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### नेचुरल गैस (जून) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस (जून) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 263.40

निचला स्तर: 178.00

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (जून) कॉन्ट्रैक्ट 23 मई 2024 को 246.10 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 221.80 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 76.24 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

215.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 260.00 ₹ के टारगेट के लिए 230.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### हल्दी (जून) एनसीडीईएक्स



### हल्दी (जून) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 20174.00

निचला स्तर: 12922.00

एमसीएक्स में हल्दी (जून) कॉन्ट्रैक्ट 23 मई 2024 को 19300.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 18627.11 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 60.18 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

20300.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 17300.00 ₹ के टारगेट के लिए 19300.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी की कीमतों में तेजी की उम्मीद है क्योंकि मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के मद्देनजर खरीदारों ने अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में अपनी लांग पोजीशन बढ़ा दी है। कम उत्पादन के कारण सांगली, निजामाबाद और इरोड बाजार में आपूर्ति में काफी गिरावट हुई है जिससे हाजिर कीमतें बढ़ गईं और इसका असर वायदा पर दिखने की संभावना है। निजामाबाद में हाजिर और वायदा कीमतों के बीच स्प्रेड 1000 के सामान्य के मुकाबले 2600 अंक तक बढ़ गया है जो हाजिर कीमतों को बढ़ा देगा। आवक कम रही है क्योंकि अनुमान है कि उत्पादन में साल-दर-साल 16% की गिरावट आएगी और यह बाजार वर्ष 2024-25 में 9.7 लाख टन रह सकता है। भारत से हल्दी का निर्यात मार्च 24 में 7% कम होकर 17.43 हजार टन रह गया, जबकि अप्रैल 23-मार्च 24 के दौरान कुल निर्यात 162.0 हजार टन दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष से 4.7% कम है। निराशाजनक निर्यात अभी भी प्रमुख चिंता का विषय है। हल्दी की कीमतों के 19100-20300 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

स्थानीय बाजार में बेहतर खरीदारी के कारण जीरा वायदा कीमतों में मिला-जुला कारोबार होने की उम्मीद है। बंपर उत्पादन के अनुमान ने कीमतों में गिरावट के डर से स्टॉकहोल्डिंग को स्टॉक खत्म करने के लिए प्रेरित किया है। ऊंझा बाजार में जीरा की कीमतें 30700 के करीब रहीं, जो निकट महीने के वायदा से लगभग 1400 अंक अधिक है। वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण निर्यात पूछताछ में वृद्धि हुई है जो कीमतों में हर गिरावट पर खरीदारों को प्रेरित करेगी। मार्च-24 में लगभग 68.8 हजार टन जीरा आया और अप्रैल-24 में यह घटकर 44.68 हजार टन रह गया। चीन और बांग्लादेश से मांग में अधिक वृद्धि हुई जिससे हाल के सप्ताहों में समग्र निर्यात को समर्थन मिला। बंपर फसल उत्पादन से अहम बढ़त सीमित हो जाएगी। साल 2024 के आने वाले महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में स्टॉकहोल्डिंग ज्यादातर स्टॉक अपने पास रखे हुए हैं। किसानों को उनकी खेती की लागत पर बेहतर रिटर्न मिलने के बाद आपूर्ति बढ़ सकती है। जीरा की कीमतें 25000-32300 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

बाजार में आपूर्ति संबंधी बाधाओं के मद्देनजर धनिया की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। चीन और बांग्लादेश से मांग बढ़ी है, जिससे निर्यातकों को कीमतों में हाल ही में गिरावट के कारण धनिया खरीदने के लिए प्रेरित किया गया है। कमजोर उत्पादन अनुमान और धीमी आवक गति ने कीमतों में मजबूती का समर्थन किया। मई-24 में अब तक प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर लगभग 19 हजार टन की आवक हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी समय के दौरान 46.6 हजार टन की आवक हुई थी। धनिया का कुल उत्पादन साल-दर-साल 26% कम होने की संभावना है, जिससे धनिया में प्रमुख रुझान सकारात्मक रहेगा। लेकिन, भारी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी पर रोक लगने की संभावना है। धनिया की कीमतों के 7400-8200 के दायरे में रहने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेत मिलने के कारण कपास की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार की उम्मीद है। शीर्ष उपभोक्ता चीन की ओर से मजबूत मांग और मजबूत निर्यात बिक्री आंकड़ों के कारण आईसीडी में कॉटन वायदा में तेजी आई। मुख्य रूप से चीन के लिए शुद्ध बिक्री और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023/24 में अमेरिकी कपास के सबसे बड़े उपभोक्ता के लिए कुल शुद्ध बिक्री 104,400 आरबी हुई थी और 2024/25 के लिए यह 13,200 गांठ हुई है। एनएसएसएस क्रॉप प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, 13 मई तक अमेरिकी कपास की फसल 33% बोई गई है, जो पिछले साल और पांच साल की औसत संख्या की तुलना में 2% अधिक है। आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में 323.1 लाख गांठ उत्पादन में से लगभग 280.6 लाख गांठ की आवक हुई है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों को 55500-60000 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-25) वायदा की कीमतों के 1550-1640 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति कम होने के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। ग्वारसीड के रकबे में गिरावट की उम्मीद से बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन मिलने की संभावना है। ग्वार के तहत क्षेत्रफल में कमी आ सकती है क्योंकि खेती की लागत पर तुलनात्मक रूप से कम रिटर्न के मद्देनजर किसान ग्वार के तहत अपने रकबे को अन्य लाभदायक फसल में स्थानांतरित कर सकते हैं। बेहतर पैराई मार्जिन और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर गुणवत्ता वाली फसल की सीमित उपलब्धता से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। ग्वारगम की निर्यात मांग में सुधार हुआ है जिससे ग्वारसीड की कीमतों में भी वृद्धि होगी। ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों का निर्यात मार्च 24 में सालाना 40% बढ़कर 40.7 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 5200 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रजिस्ट्रेंस 5900 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 10100 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रजिस्ट्रेंस 11800 पर देखा जा सकता है।

आपूर्ति की स्थिति में सुधार के कारण मेंथा तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना है क्योंकि मध्य क्षेत्र में नई आवक बढ़ने की संभावना है। मेंथा ऑयल का निर्यात बढ़ने से गिरावट सीमित होगी। भारत ने मार्च-24 के दौरान लगभग 207 टन मेंथा तेल का निर्यात किया, जबकि सरकार की नवीनतम विज्ञापित के अनुसार पिछले वर्ष के 202 टन की तुलना में मार्च-24 में मेन्थॉल निर्यात 3% साल-दर-साल बढ़कर 855 टन हो गया। पिछले साल की तुलना में आवक कम है जिससे कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। मेंथा ऑयल की कीमतों के 900-980 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सीमित उपलब्धता के मुकाबले बढ़ती मांग के कारण अरंडी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। अरंडी के रकबे में गिरावट की उम्मीद से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। पैराई मांग में सुधार होने की संभावना है जिससे कीमतों को तेजी के रुख पर व्यापार करने में मदद मिलेगी। अरंडीकेक और तेल की सुस्त मांग से बढत सीमित रह सकती है। कैस्टर सीड की कीमतों के 5550-6000 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्पिका

सोने की कीमतें दो सप्ताह के निचले स्तर के करीब हैं और तीन सप्ताह में पहली साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि निवेशकों ने हाल के अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद फेड द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदें कम कर दी हैं। गुरुवार को, मैनुफैक्चरिंग, सेवाओं और समग्र पीएमआई के लिए एसएंडपी ग्लोबल के मई माह के आंकड़ों ने संकेत दिया कि अमेरिकी व्यापार गतिविधि में तेजी आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया के कुछ हिस्सों और यूरोप में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, इस महीने वैश्विक व्यापार गतिविधि में आम तौर पर सुधार हुआ है, जो केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में कटौती में देरी करने की अनुमति दे सकता है। इस बीच, एक अध्ययन से पता चला है कि पेरू के अवैध सोने के निर्यात का मूल्य कई अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों के कुल वैध सोने के निर्यात से अधिक है। फेड की मई बैठक के मिनट में मुद्रास्फीति के बारे में लगातार चिंताएं दिखाई दीं, और कई अधिकारियों ने संकेत दिया कि यदि मूल्य वृद्धि जारी रही तो ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है। अटलांटा फेड के अध्यक्ष राफेल बोस्टिक ने उल्लेख किया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक को कीमतों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण ब्याज दरों में कटौती करने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, यहां तक कि अप्रैल की मुद्रास्फीति में थोड़ी गिरावट के साथ भी। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा ने कहा कि अर्थव्यवस्था मध्यम सुधार की राह पर है, जिससे पता चलता है कि केवल पहली तिमाही की जीडीपी गिरावट केंद्रीय बैंक को आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ाने से नहीं रोकेंगी। कॉमेक्स पर, सोने की कीमतों को 2450 डॉलर के करीब रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ रहा है और इसमें भारी गिरावट देखी गई है, जो अब 2320 डॉलर के सपोर्ट के करीब है। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे आती हैं, तो गिरावट 2280 डॉलर तक बढ़ सकती है। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे जाने में विफल रहती हैं, तो रजिस्ट्रेंस की दिशा में बढ़ने की संभावना है। चांदी की कीमतें 28-31 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। इस सप्ताह में एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, कीमतें 70000-73000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 87500-92800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स



भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति और मांग की गतिशीलता और वैश्विक आर्थिक रुझानों के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी पीएमआई आंकड़ों के कारण तेल की कीमतों में 3% से अधिक की गिरावट हुई, जिससे इस साल फेडरल रिजर्व को ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मांग के दृष्टिकोण पर असर पड़ा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि नवीनतम एफओएमसी मिनटों में बताया गया है, कुछ फेड अधिकारियों ने मुद्रास्फीति बढ़ने पर दरें बढ़ाने की इच्छा का संकेत दिया है। ईआईए आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुशिंग, ओक्लाहोमा के प्रमुख भंडारण केंद्र में स्टॉक जुलाई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन उसी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि अमेरिकी गैसोलीन की मांग नवंबर के बाद से अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गई, जिससे अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ड्राइविंग सीजन से पहले तेल की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली। सभी की निगाहें अब 1 जून को होने वाली आगामी ओपेक+ बैठक पर हैं, जहां प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा वैश्विक आपूर्ति को रोकने और कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की संभावना है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में मिला-जुला रुझान जारी रह सकता है, और कीमतें 6200-6600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा लगभग 2% बढ़कर चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि उपयोगिताओं ने लगातार चौथे सप्ताह वर्ष के इस समय में भंडारण में सामान्य से कम गैस डाली। टेक्सास में बिजली का उपयोग मई के रिकॉर्ड को पार करने की ओर अग्रसर है और मेमोरियल डे सप्ताहांत में फिर से शीर्ष पर पहुंच सकता है क्योंकि घरों और व्यवसायों ने गर्मी की लहर से बचने के लिए अपने एसी चालू कर दिए हैं। लेकिन, मौसम संबंधी मांग में उतार-चढ़ाव के कारण नेचुरल गैस की कीमतें अस्थिर रहने की उम्मीद है। इस सप्ताह में नेचुरल गैस की कीमतों के 210-250 के दायरे में रहने की संभावना है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि चीनी कारखाने रिकॉर्ड कीमतें चुकाने से पीछे हट गए हैं और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने मुद्रास्फीति पर सख्त टिप्पणियां की हैं। तांबे की कीमतें 885-912 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कमजोर हाजिर मांग, मजबूत आयात और बढ़ते घरेलू उत्पादन के कारण चीन के एक्सचेंज में भंडार अधिक हो गया है। चीनी खरीदारों ने तांबे की कीमतों में तेजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपना स्टॉक छोड़ दिया है। अलाभकारी ट्रीटमेंट शर्तों के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए चीनी स्मेल्टरों द्वारा मार्च में किया गया समझौता तांबे की कीमतों में जोरदार तेजी का एक मुख कारण था, लेकिन देश की उत्पादन दर पर किसी भी प्रभाव को समझना अब तक कठिन है। ऊंचे स्टॉक और अत्यधिक ऊंची कीमतों के संयोजन के कारण यांगशान प्रीमियम में गिरावट हुई है, जो चीन में तांबे की आयात का बारीकी से पता लगाया जाने वाला संकेतक है। चीन में, जो धातु का शीर्ष उपभोक्ता है, तांबे भंडार चार साल के उच्चतम स्तर पर है क्योंकि कीमतें 10,000 डॉलर प्रति टन से अधिक होने के बाद मांग कम हो गई। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में मार्च में 125,000 टन सरप्लस रहा है। जिंक की कीमतें 266-280 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन में पिछले महीने की तुलना में उत्पादन में 26,800 मीट्रिक टन की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो विभिन्न प्रांतों में स्मेल्टरों में रखरखाव और उत्पादन में वृद्धि के बाद उत्पादन फिर से शुरू होने के कारण 531,400 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। लेड की कीमतें 187-197 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक लेड बाजार फरवरी में 29,500 टन के सरप्लस से मार्च में 5,500 मीट्रिक टन की कमी पर पहुंच गया। एल्युमीनियम की कीमतें 232-245 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में चीन का कच्चा एल्युमीनियम और उत्पादों का आयात सालाना आधार पर 72.1% बढ़कर 380,000 मीट्रिक टन हो गया।

## 2024 में कमोडिटीज का प्रदर्शन...“एक शानदार तेजी”



2024 में अब तक कीमती धातुओं और बेस मेटल में शानदार तेजी देखी गई है। केंद्रीय बैंकों की ओर से आक्रामक खरीदारी के बीच मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक चिंता के कारण कीमती धातुओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर आक्रामक खरीदारी ने भी तेजी को बढ़ावा दिया क्योंकि वे अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं।

- इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक झटकों के दौरान सोने ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
- स्थिर मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों की बड़े पैमाने पर खरीदारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने सुरक्षित निवेश के रूप में बुलियन को और ऊपर पहुंचा दिया है।
- चांदी अपने अद्वितीय औद्योगिक गुणों के कारण बढ़ी है क्योंकि आपूर्ति की चिंता के बीच प्रमुख औद्योगिक धातु की कीमतों में तेजी ने सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया है।
- दुनिया भर में ऊंची ब्याज दर सर्राफा में मजबूत सेंटीमेंट को कमजोर नहीं कर सकी।

2024 में अब तक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भूराजनीतिक और स्थिर वैश्विक मांग का प्रतिबिंब है। मध्य पूर्व के तनाव में वृद्धि, उच्च शिपिंग लागत और तेल आपूर्ति की कमी, तेल उत्पादक समूह ओपेक और अन्य बड़े तेल उत्पादकों के उत्पादन पर अंकुश ने काउंटर को समर्थन प्रदान किया है। बढ़त सीमित है क्योंकि दुनिया आरामदायक आपूर्ति का आनंद ले रही है। कुछ आपूर्ति व्यवधानों के बीच भू-राजनीतिक तनाव के कारण इसमें कभी-कभी उछाल देखा जाता है।

- औद्योगिक धातुएँ निवेश रडार पर वापस आ गई हैं और दुनिया के तीन सबसे बड़े धातु एक्सचेंज इसका लाभ उठा रहे हैं।
- वर्ष के पहले चार महीनों में एलएई की औसत दैनिक मात्रा में 35% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के मध्य में शुरू हुई विकास की गति में तेजी को दर्शाता है।
- तांबे और एल्युमीनियम जैसी कमोडिटीज में बढ़त का मुख्य कारण कम आपूर्ति है। तांबे की खदानों से कम आपूर्ति के कारण रिफाईंड उत्पादन में बाधा आ रही है।
- तांबा ऊर्जा संक्रमण का केंद्र भी है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आंकड़ा केंद्रों के विस्तार से इसे अधिक लाभ होगा।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्क्रोरीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।